

## कनिष्ठ सहायक के पद के लिए सामान्यकरण सूत्र

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रसामान्यीकृत स्कोर  $(X_n) = X_n = (S_2/S_1) * (X - X_{av}) + Y_{av}$

<b>S2</b>	सामान्यकरण के लिए आधार के रूप में लिए गए उच्चतम औसत स्कोर के साथ शिफ्ट का <b>SD</b> है (सामान्यकरण के लिए आधार चुनने के लिए मापदंड आमतौर पर उच्चतम औसत कच्चे स्कोर के साथ शिफ्ट के रूप में लिया जाता है)
<b>S1</b>	अनुरूप शिफ्ट के लिए मानक विचलन (स्केल किया जाना <b>S2</b> )
<b>X</b>	एक उम्मीदवार का कच्चा स्कोर
<b>X<sub>av</sub></b>	शिफ्ट का सरल औसत
<b>Y<sub>av</sub></b>	उच्चतम औसत के साथ शिफ्ट के अनुरूप औसत (सामान्यकरण के लिए आधार के रूप में लिया गया)